



# SSI (सेटलमेंट सर्विसिज़ इंटरनेशनल) इंफॉर्मेशन, लिंकेजिस और कैपेसिटी बिल्डिंग (ILC)

समर्थन प्रदान करते हुए, समुदायों को सशक्त करते हुए



**SSI**  
**Information, Linkages**  
**and Capacity Building (ILC)**

Providing support, empowering communities

Delivering the NDIS in your community

Hindi

## ILC समावेशी समुदायों का निर्माण करने और विकलांगता ग्रस्त लोगों को उनके समुदाय में सहायता संपर्कों के साथ जोड़ने के बारे में है।

एक लोकल एरिया कोर्डिनेटर (LAC) के तौर पर, SSI 7 से 64 साल की आयु वाले लोगों को National Disability Insurance Scheme (राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना - NDIS), तथा साथ ही समुदाय में अन्य सेवाओं और समर्थनों तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता देती है।

2014 से, SSI ने Ability Links और IgniteAbility® Small Business Start-ups (लघु व्यापारों को शुरू करने) जैसे कई सामुदायिक आधारित प्रस्तावों के माध्यम से विकलांगता ग्रस्त लोगों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं का समर्थन किया है। हम अपने कर्मचारी और सहभागी विशेषज्ञों तथा स्थानीय समुदायों से उनके संबंधों के माध्यम से पूरे NSW में विकलांगता सेवाएँ प्रदान करने हेतु व्यापक जानकारी लाते हैं।

चाहे व्यक्ति NDIS सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हो या न हो, SSI LAC प्रदाता सहभागियों, परिवारों और देखभालकर्ताओं के कौशल और ज्ञान का निर्माण करने में सहायता दे सकते हैं ताकि वे मुख्य सेवाओं और सामुदायिक समर्थन संपर्कों से जुड़ सकें।



## लोगों को समुदाय में सूचना और सहायता के साथ जोड़ना

ILC सलाहकार NDIS तक पहुँच प्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता करेगा और उन्हें व्यक्तिगत लक्ष्यों की पहचान करने और उनके स्थानीय समुदाय में उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी देकर NDIS की बैठकों के लिए तैयार करेगा।

SSI के ILC सलाहकारों के पास सुदृढ़ स्थानीय ज्ञान है और वे समुदायों के साथ काम करते हैं तथा वे समुदायों को स्वागत करने वाले तथा समावेशी बनने में सहायता देते हैं ताकि विकलांगता ग्रस्त लोगों को अपने लक्ष्य पाने में मदद मिल सके।

हमारे ILC सलाहकार NDIS और LAC के बारे में ऑनलाइन तथा आमने-सामने के सूचना सत्र प्रदान करते हैं। वे प्रतिभागियों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों को उनकी NDIS योजनाओं और फंडिंग के बारे में बेहतर सूचित निर्णय लेने के लिए शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की सुविधा भी देते हैं।


### ILC सलाहकार समुदाय में लोगों की निम्नलिखित कार्यों में सहायता करेगा:



NDIS को समझना और इसतक पहुँच प्राप्त करना



सामुदायिक जीवन में भाग लेना



मौजूदा सहायता संपर्कों का निर्माण करना तथा नए सहायता संपर्क बनाना



यह समझना कि NDIS अन्य सरकारी सेवाओं के साथ कैसे काम करती है



भविष्य के लिए लक्ष्यों और योजना की पहचान करना

## और अधिक जानना चाहते/चाहती हैं?

SSI की स्थानीय क्षेत्र समन्वयक सेवाओं और सहभागिता संबंधी अवसरों से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए, कृपया

[www.ssi.org.au/services/local-area-coordination](http://www.ssi.org.au/services/local-area-coordination) वेबसाइट देखें

या

निम्नलिखित माध्यम से SSI Intake Team से संपर्क करें:



**1800 960 975** पर फोन करें

सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच फोन करें

या



सामान्य पूछताछ के लिए [lac@ssi.org.au](mailto:lac@ssi.org.au) पर ई-मेल करें

कोई फीडबैक जमा कराने के लिए [lacfeedback@ssi.org.au](mailto:lacfeedback@ssi.org.au) पर ई-मेल करें

**ndis**

**SSI**  
settlementservices  
international

Delivering the NDIS in your community